



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2023

पौष 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 3363/81-2-2023-165जी-2017

लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

सा०प०नि०-50

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 51क के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 को संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (सप्तम संशोधन)

नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978 में, नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 16 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- नया नियम 16 का बढ़ाया जाना

16. इस नियमावली की कोई बात घरेलू बड़ईगीरी, लकड़ी के खिलौने बनाने वाली इकाई, काष्ठ हस्तकला बनाने की इकाई, जलौनी लकड़ी के डिपो, लकड़ी के बुरादे का उपयोग करने वाली इकाईयों के सामान्य प्रचालन या लघु पैमाने पर अन्य समरूप प्रचालनों, जिसके पास गोल प्रकाष्ठ के चिरान, संपरिवर्तन, कटान एवं प्रसंस्करण की सुविधा नहीं है, पर लागू नहीं होगी। नियमावली की प्रयोज्यता

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3363/LXXXI-2-2023-165G-2017, dated December 28, 2023:

No. 3363/LXXXI-2-2023-165G-2017

Dated Lucknow, December 28, 2023

IN exercise of the powers conferred under clause (a) of section 51-A of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills Rules, 1978.

THE UTTAR PRADESH ESTABLISHMENT AND REGULATION OF SAW MILLS
(SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title
extent and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills (Seventh Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Insertion of new
rule 16

2. In the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills Rules, 1978, after rule 15, the following new rule 16 shall be *inserted*, namely :-

"Application
of rule

16. Nothing in these rules shall apply to the general operation of domestic carpentry, wooden toys units, wooden handicraft units, firewood depots, units using wood sawdust or other similar operations on a small scale, which does not have facility for sawing conversion, cutting and processing of round logs."

By order,
MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.